

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
भारत
Govt. of National Capital Territory of Delhi,
INDIA



नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
New Delhi Municipal Council

264220

No.

मृत्यु प्रमाण पत्र / DEATH CERTIFICATE

फार्म संख्या / FORM NO. - 6

(नियम संख्या 8 देखिए) / (See Rule - 8)

(जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की धारा 12/17 के अंतर्गत दिया गया)
(Issued under section 12/17 of the Registration of Births and Deaths Act, 1969)

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित सूचना मृत्यु के मूल लेख से ली गई है जो कि (स्थानीय क्षेत्र)
This is to certify that the following information has been taken from the original records of death which is

के रजिस्टर में उल्लिखित है

register for (Local Area).....Mandir Marg, New Delhi

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के जिला

New Delhi Municipal Council of District - New Delhi

के. रा. रा. क्षेत्र दिल्ली।

State of NCT of Delhi.

मृतक का नाम / Name of Deceased :

SATYAJIT CHAKROVARTY

पिता/पति का नाम / Name of Father / Husband :

LATE. S. CHAKROVARTY

लिंग / Sex :

MALE

मृत्यु की तिथि / Date of Death :

02 NOVEMBER 2005

मृत्यु का स्थान / Place of Death :

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES NEW DELHI

पंजीकरण संख्या / Registration No. :

4174

पंजीकरण तिथि / Date of Registration :

11 NOVEMBER 2005

दिनांक/ Date : **16/11/2005**

प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद्
Signature of Issuing Authority
New Delhi Municipal Council

मोहर / SEAL

मृत्यु की स्थिति में पंजीकरण में दिए गये मृत्यु के कारणों का कोई ब्योरा नहीं दिया जाएगा। जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1969 की धारा 17 (1) के परन्तुक को देखिए।
No disclosure shall be made of particulars regarding the cause of death as entered in the register See provision to Section 17(1) of the Registration of Birth & Death Act, 1969.

Visit us : www.ndmc.gov.in